



Date: 15/07/2020

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051

Sub.: Newspaper publications - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: PC Jeweller Limited (Scrip Code: 534809, Symbol: PCJEWELLER)


Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the publications made by the Company on July 15, 2020 in Mint (English) and Hindustan (Hindi) newspapers, titled as “INFORMATION REGARDING THE 15TH ANNUAL GENERAL MEETING”, in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For **PC Jeweller Limited**


(VIJAY PANWAR)

Company Secretary

Encl.: As above

PC Jeweller Limited

REGD. & CORPORATE OFF: C - 54, PREET VIHAR, VIKAS MARG, DELHI - 110 092 PH: 011 - 49714971 FAX: 011 - 49714972

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN: L36911DL2005PLC134929

Wholesale inflation dips for third straight month

WPI inflation contracted 1.81% in June against a 3.21% contraction in May

Asit Ranjan Mishra
asmr@liveint.com
NEW DELHI

India's wholesale price index inflation contracted for the third consecutive month in June, official data showed on Tuesday, even though the rate of deflation narrowed compared with the preceding month. The price of crude oil fell drastically during June, while manufacturers continued to lose pricing power as consumer demand waned amid the unfolding coronavirus pandemic.

Data released by the industry department showed that wholesale price index (WPI) inflation contracted 1.81% in June against a 3.21% contraction in May. During the month, crude petroleum prices softened 41.4% from a year ago, while fuel prices also eased by 13.6% from their levels a year earlier.

Ten out of the 17 categories of manufactured products listed in WPI including textiles, wood, chemicals and basic metals saw a contraction in prices as both demand and supply remained constrained due to coronavirus-related issues.



Wholesale food inflation, however, picked up marginally in June to 2% from 1.1% in May.

Wholesale food inflation, however, picked up marginally in June to 2% from 1.1% in the preceding month.

Retail price inflation released on Monday showed food inflation eased to a nine-month low of 7.87% in June while headline retail inflation at 6.09% released after a gap of two months came surprisingly higher than the pre-coronavirus print of 5.84% for March.

With a sharp principal economist at Itra Ratings, said the divergence between food inflation at the wholesale and retail level remained substantial in June even after narrowing considerably, pointing to the continued varied dynamics driving food prices as the country emerges from the lockdown. "With vegetable prices rising sharply in the recent

weeks, the uptick in wholesale food inflation may continue in July," she added.

Traditionally, retail and wholesale price inflation have followed different trajectories because CPI and WPI are two different sets of indicators with varied compositions. Manufactured items have the highest weight of 64.23% in WPI, while fuel and primary articles was 13.15% and 22.62%, respectively. On the other hand, food and beverages have the highest weight of 54.18% in CPI, while services sectors such as health, education and amusement have a combined weight of 27.26%. However, retail food inflation

often mimics wholesale food inflation with a lag as price rises are first reflected in the wholesale market before the retail market.

While retail inflation remains elevated above the upper limit of the tolerance level of the central bank, most analysts believe the Reserve Bank of India may continue to prioritize growth over inflation in the medium term and may further cut its policy rate in its monetary policy committee (MPC) meeting next month.

The MPC has cut the policy rate cumulatively by 155 basis points between February 2019 and the onset of the pandemic.

"The smaller disinflation in the headline and core WPI, as well as a CPI inflation print in excess of the medium-term target range, are unlikely to outweigh growth concerns when the MPC deliberates on the course of monetary policy," Nair said.

MUTATED DEMAND

IN JUNE, crude prices softened 41.4% y-o-y while fuel prices also eased by 13.6% y-o-y

TEN out of 17 classes of manufactured goods listed in WPI saw contraction in prices owing to covid

RETAIL price inflation data showed that food inflation eased to a nine-month low of 7.87% in June



Yatra.com partners with upGrad to enter edutech segment
bit.ly/2oqE7fj

Hospitals can't deny cashless claims to coronavirus patients, says regulator

FROM PAGE 1

On Tuesday, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) issued a circular with a series of instructions aimed at discouraging healthcare providers from taking large sums of money as deposits from patients and denying them cashless claims.

"It is clarified that the policyholders are entitled to cashless facility at all such network providers (hospitals) with whom the insurance company/TPA (third party administrator) has entered into an agreement in accordance to the norms of service level agreement (SLA)," said Irdai in its circular.

In case of denial of cashless facility, it said, policyholders can file a complaint by writing to the grievance redressal officer of the insurer, the details of which would be on the company's website.

Insurers have been told to put in place an exclusive grievance redressal mechanism to address complaints relating to the denial of cashless claims.

In cases where a policyholder's interests have been adversely affected because of the conduct of



Given the high infection rate, finding a hospital bed has become a task in itself, said analysts.

the hospital, Irdai said these should be immediately reported to the appropriate government agencies in the state or area.

The regulator directed all general and standalone insurance companies as well as third-party administrators or TPAs, who process insurance claims, to publish a list of hospitals on their websites.

All these hospitals shall provide cashless claims facilities for all treatments, including covid-19, it said.

Hospital representatives said earlier that several insurers have not revised their cashless agreement

rates in the last four years and, given the medical inflation, the old rates are untenable.

Also, due to the pandemic, hospitals are cash-strapped, and the finances only get worse if insurers don't settle claims on time.

Insurance experts Mint spoke to said Irdai can only issue an advisory, on the basis of which insurance companies can negotiate with hospitals. However, hospitals cannot be forced to comply with the circular.

"There are dialogues going on between hospitals and insurers on this as well as standardizing rates in line with the prices prescribed by the general insurance council. Negotiations and discussions with network providers are the only solutions," said the chief underwriting officer of a general insurance company, who didn't want to be named.

In normal circumstances, policyholders have the option of choosing a hospital. But given the high infection rate for covid-19, finding a hospital bed has become a task in itself and experts said in such a situation, some amount of regulatory intervention could help in the negotiation process.

Google dials Jio for \$4 bn Platforms stake

FROM PAGE 1

25.24% in just 11 weeks. For Ambani, the investments have helped Reliance Industries turn net debt-free before the March 2021 deadline. For the country, the deals have positioned India as a hot spot for M&A this year, accounting for more than 12% of those announced in the Asia-Pacific—the highest ratio since at least 1998, Bloomberg reported.

Facebook has invested \$5.7 billion in Jio Platforms in April; Microsoft's venture fund M12 said last month it would open an office in India to pursue investment opportunities focusing on B2B software startups. Earlier this year, Amazon said it would invest an additional \$1 billion in India. Intel

has announced an investment of ₹1,894.50 crore for a 0.39% stake in Jio Platforms.

Google plans to invest \$10 bn in India over 5-7 years by way of equity investments, tie-ups, and other arrangements

On Monday, Google said it plans to invest \$10 billion in India over the next 5-7 years by way of equity investments, partnerships, and other arrangements to "accelerate digitization" in the country.

Google, Facebook, and Amazon.com Inc. are pumping billions of dollars into India to lay the foundation for future growth in one of the world's largest relatively untapped internet markets. With just half of India's billion-plus people having access to internet, it is an attractive growth market as companies prepare to tap the next 500 million for services such as video streaming, search, cloud hosting, and digital payments.

amruidra@liveint.com

PC Jeweller Limited
Regd. Off: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092
Phone: 011-49714971, Website: www.pcjeweller.com
Fax: 011-49714972, E-mail: investors@pcjeweller.com
Corporate Identity Number: L35911D22005PLC34929

INFORMATION REGARDING THE 15th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting (AGM) of PC Jeweller Limited (the "Company") will be held on August 7, 2020 at 1:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circulars No. 20/2020 dated May 5, 2020, 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), to transmit the business specified in the AGM Notice.

In view of the prevailing situation, owing to the difficulties involved in dispatching of physical copies of the Notice and Annual Report and pursuant to MCA Circulars and SEBI Circular SEBI/HO/CPD/CMD/1/CIRP/2020/79 dated May 12, 2020, 15th AGM Notice along with Annual Report 2019-20 shall be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Depository / the Company's Registrar & Transfer Agent ("RTA") - KFin Technologies Private Limited ("KFin"). AGM Notice and Annual Report are also available on the Company's website www.pcjeweller.com, website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of KFin at https://evoting.kanvy.com.

Members will be able to cast their vote electronically on the business specified in the Notice of the 15th AGM either during remote e-voting period or during the AGM (when e-voting window is activated). If your e-mail ID is registered with the Depository / RTA, the login details for remote e-voting will be sent on your registered e-mail ID. Please note that same login details are required for participating in the AGM through VC / OAVM and vote on the resolutions during the AGM. The instructions for e-voting and attending the 15th AGM through VC / OAVM are provided in the AGM Notice. If a Member is already registered with KFin for e-voting, he/she can use his/hers existing User ID and Password.

Members, who have not yet registered their e-mail IDs and updated their bank account details, are requested to do so by following the procedure given below:

- Members holding shares in demat form can register their e-mail IDs and update bank account details by contacting their respective Depository Participant(s) and following the procedure advised by them.
- Members holding shares in physical form can send a request to KFin at the email ID - einward.rs@kfinetech.com providing Folio No., Name of Member, e-mail ID, scanned copy of share certificate (front and back) and self-attested scanned copy of Pan Card, for registering their e-mail ID. Additional details like name of the bank, branch of the bank, bank account number, 9 digit MICR code, 11 digit IFSC code and scanned copy of cancelled cheque will be required for updating bank account details.

The Company has also made available an e-mail registration facility to its Members through KFin, for the limited purpose of receiving notice of the 15th AGM and Annual Report 2019-20 in electronic mode. Members are requested to access the link https://15n.itechnote.com/email_registration to register their e-mail ID.

By order of the Board of Directors
For PC Jeweller Limited
Sd/-
(VJAY PANWAR)
Company Secretary

Place: Delhi
Date: 14/07/2020

ONGC Petro additions Limited
4th Floor, 38, Noida Bharat Cooperative Housing Society Limited, R.C. Dutt Road, Akasht, Noida-201307, Sector-19, Distt. Gautam Buddha Nagar, U.P. UG229262009PLC26262

TENDER NOTICE

Tender Number: 2020CO0393, Tender Description: Procurement of under capacity battery banks at OPAL, Dajeh Complex, Tender sale period: 15.07.2020 to 05.08.2020 till 14:00 Hrs. Closing date and time for Bid Submission: 05.08.2020 at 14:00 Hrs.

The tender document can be downloaded from www.opalindia.in. For other details of this tender including corrigendum if any, Bidders should regularly visit OPAL website (www.opalindia.in) for the latest information in this regard. In case of exigencies OPAL at its option may decide to extend tender sale / bid closing / opening date / time in future, which will be posted on the above referred website for information.

Advt. No.- 63/2020
Government of India
Public Enterprises Selection Board
invites applications for the post of
DIRECTOR (PROJECTS)
in
NBCC (INDIA) LIMITED
Last date of receipt of applications in
PESS is
by 15.00 hours on 18th September, 2020
For details login to website
<http://www.pesb.gov.in>

indiamart
INDIAMART INTERMESH LIMITED
Regd. Office: 1st Floor, 29, Dayaganj, Netaji Subash Marg, Delhi-110002
Tel.: (+91) 11 49956600
E-mail: cs@indiamart.com, Website: www.indiamart.com
CN: 1746901, 1909PLC101534

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, July 21, 2020, inter-alia to consider the Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020.

This notice can be accessed on Company's website www.indiamart.com and also on the portals of respective stock exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Indiamart Intermesh Limited
Sd/-
Manoj Bhargava
Senior Vice President (Legal & Secretarial)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Delhi
Dated: 14.07.2020

RADICO KHALIAN LIMITED
CIN: L29841UP1985PLC027278
Regd. Office: Barahat Road, Rampur-244101 (U.P.)
Tel. No.: 0595-236061/2, 2351703
Fax No.: 0595-2350109
Email ID: info@radico.co.in
Website: www.radikokhalian.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 23rd July, 2020 at New Delhi, to inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Results for the 1st Quarter and three months ended 30th June, 2020.

The said information is also available on the website of the Company viz. www.radikokhalian.com and the websites of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. Bombay Stock Exchange Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Radico Khalian Limited
Sd/-
Anil Manchanda
Company Secretary

New Delhi
14th July 2020

CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED
(CIN: L24124RJ1985PLC003293)
Registered Office: Gadejan, Distt. Kota, Rajasthan - PIN 325 208
Tel. No. 0744-2782915, Fax No. 07445-274130
Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025
Tel. Nos.: +91-11-46581300, 41697900; Fax No.: +91-11-40638679
Email: iso@chambal.in, Website: www.chambalfertilisers.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Chambal Fertilisers and Chemicals Limited is scheduled to be held on Wednesday, July 29, 2020 at "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025 to approve, inter-alia, the standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2020.

Investors may visit the website of the Company (www.chambalfertilisers.com) and the websites of the Stock Exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com for further details in this regard.

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
Sd/-
Rajveer Singh
Vice President- Legal & Secretary

New Delhi
July 14, 2020

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Electronics and Information Technology
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA (UIDAI)

Filling up the posts of Assistant Director General (Technology) on deputation in UIDAI.

Reference is invited to UIDAI vacancy circular dated 20.06.2020 (https://uidai.gov.in/images/career/VCI_for_the_posts_20_of_ADG_Technology_on_deputation_in_UIDAI_21042020.pdf) and 24.06.2020 inviting applications for 14 designated posts (tenure of Assistant Director General in the Pay Matrix level-13 (pre-revised Pay Band Rs. 1,23,100-2,15,900)) on deputation basis at UIDAI offices at Delhi, Guwahati, Lucknow, Mumbai, Hyderabad, Chandigarh and Bhopal.

In this regard, it is hereby informed that last date for submission of applications through proper channel is extended upto 18.07.2020. Those who have applied against regular posts dated 20.06.2020 and 24.06.2020 through proper channel need not apply afresh. However, new applicants and applicants who have submitted only advance copy of the application may submit their applications complete in all respect through proper channel within the extended date. Since this vacancy is to be filled up on deputation basis, private candidates are not eligible.

Assistant Director General (HR)

New Aadhaar Enrollment & Update Facilities can also be availed at Aadhaar Sava Kendra (ASK). To locate one near you, visit UIDAI GOV IN or Call 1847.

UIDAI/2020/10024/2020

bharti
BHARTI INFRAFRATEL LIMITED
CIN: L64201HR2006PLC073821
Regd. Office: 901, Park Centre, Sector 30, NH-8, Gurugram, Haryana- 122001
Tel.: +91-124-4123260, F: +91-124-4109580
Email: id.compliance.officer@bharti-infratel.in Website: www.bharti-infratel.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, July 27, 2020, to consider and take on record the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the first quarter (Q1) ended on June 30, 2020.

Notice of the Board Meeting is also available on the website of the stock exchanges www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the website of the Company www.bharti-infratel.com.

For Bharti Infratel Limited
Sd/-
Samridhi Rodhe
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 14 July 2020

Business of Life

Daily articles on the workplace, and how it is evolving.

mint or nothing

To get your MINT copy, give a missed call on 7039035039 or visit www.mintreaders.com or write to us at subscription@liveint.com

NOIDA
New Oldia Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida - 201301 (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.com

E-TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from firms/contractors registered with UPLC Luhnok for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened / downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on NOIDA Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & https://tender.up.nic.in. Please ensure to see these websites for any changes/amendments & corrigendum etc.

(A) 1. 30/GM/SW/IC-10/E-Tender/2020-21, Name of Work:- Construction of International Golf Course in Sector-151A, Noida. Cost- Rs. 752.80 Lacs.

Which can be uploaded by date 13.08.2020 upto 5.00PM. Pre-qualification shall be opened/downloaded on date 14.08.2020 at 11.00AM. Pre bid Meeting to be held on dated 24.07.2020 at 11.00 AM in the office of the General Manager, Sector-6, Noida.

General Manager
NOIDA

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

